

# संदर्भ

एक लोक संवाद पत्रिका | संस्कृति | सामाजिक सवाल



# सिकाड़ा का मधुर संगीत

नीरज जैन

20 मई की मुबह में  
ग्रामीण में लौटा।  
नहा-धोकर एक झपकी नीं,  
औंग काम पर जाने को तैयार  
हो गया। राहियों से नीचे  
उत्तरने ही, मैंने अपने कानों  
में एक नेज भिनभिनाहट  
महसूस की। पहले सोचा कि  
दम दिनों की गैरहाजिरी के  
दोगन पड़ोस के घर की चिमनी  
में आने वाली हवा की आवाज  
औंग बढ़ गई होगी। लेकिन यह  
आवाज तो हर तरफ उतनी ही  
नेज थी औंग चारों दिशाओं से  
जा रही थी, मानों कि वह मेरे  
मिर के अन्दर ही हो। फिर मैंने सोचा कि  
शायद यह मेरे लवे, थका देने वाले, रात  
भर के हवाई मफर औंग कम नींद ले पाने



का कोई असर  
होगा। मैंने मिर  
झटकारकर इससे पीछा  
छुड़ाने की कोशिश की।  
मैं घबरा गया और मोचने  
लगा कि मुझे टिन्नाइटिस हो  
गया है। टिन्नाइटिस एक ऐसी  
अवस्था को कहते हैं जिसमें व्यक्ति  
के कानों में लगातार कोई आवाज  
सुनाई देती रहती है। मैं तुरंत घर के  
अदर बापस लौट गया। मुझे यह जानकर  
काफी राहत मिली कि वह आवाज अब  
नहीं आ रही थी। लेकिन जब मैंने खिड़की  
खोली तो वह आवाज फिर से आ गई,  
खिड़की बन्द कर दी तो आवाज गायब।  
मुझे यह जानकर बेहद तसल्ली मिली कि  
भिनभिनाहट का स्रोत मेरे अन्दर नहीं  
बल्कि बाहर था। इस बात से आश्वस्त,

लेकिन फिर भी पूरी बात को समझ न पाने के कारण कुछ उलझा हुआ, मैं बाहर निकलकर अपनी प्रयोगशाला की तरफ चल पड़ा। तभी मुझे बड़ी-बड़ी उभरी हुई लाल आंखों और भूरे मे पाण्डर्शी पंखों वाले वो बड़े काले कीड़े दिखाई दिए जो भिनभिनाते हुए पेड़ों के इर्द-गिर्द उड़ रहे थे। इस तरह के कीड़े मैंने पहले कभी भी अपने घर के आसपास नहीं देखे थे। फिर मुझे यही कीड़े और दिखाई दिए... और कीड़े... और... वो लाखों की तादाद में हर कहीं थे — प्रयोगशाला के गास्टे में हर तरफ, बिल्कुल किसी डगवनी कहानी की तरह।

जैसे ही मैं प्रयोगशाला में पहुंचा मेरी दोस्त लॉग ने मुझसे पूछा, “तो, सिकाड़ा के बारे में तुम्हारा क्या स्थाल है?” और तभी मुझे याद आया कि मैंने लोगों को कहते सुना था कि 1998 सिकाड़ा का वर्ष है। यानी वह साल जब सिकाड़ा अपने 1.3 माल के जीवनचक्र में बहुत बड़ी संख्या में दिखाई देंगे। बाद में मेरे दोस्त केन ने मुझे इन कीड़ों को पकड़ने का तरीका बताया। केन सब तरह के कीड़े-मकोड़े को बहुत चाहता है और उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। सिकाड़ा पकड़ना काफी आसान था क्योंकि एक तो वे इतनी अधिक संख्या में चारों तरफ मौजूद थे, और फिर पास जाने पर भी उड़ते नहीं थे। बस एक सिकाड़ा

पकड़कर उसने मुझे इस बात से निश्चित कर दिया कि सिकाड़ा किसी भी तरह का नुकसान नहीं करते थे — न तो काटते थे, न ही डंक मारते थे। केन ने मुझे सिकाड़ाओं में नर और मादा की पहचान करना सिखाया, और उनके बारे में कई और गेंचक बातें भी बताईं।

### 1.3 साल में एक बार

सिकाड़ा कीटों के होमोपेटेग गण (Order) के सदस्य हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये एफिड (Aphid) और लाख के कीड़े में काफी मिलते-जुलते हैं। इनका जीवन चक्र बेहद लंबा और बहुत ही मजेदार होता है। मादा सिकाड़ा पेड़ों पर अंडे देती है। अंडे फूटने के बाद, नार्वा (First Instar Nymph) उन पेड़ों से टपककर नीचे जमीन से धुस जाते हैं।

जमीन के अन्दर पहुंचने के बाद ये बाल-कीट छोटी जड़ों का रस चूसकर अपना पेट भरते हैं। विकास के दौरान



अनिम कायांतरण के पश्चात वचा खाली खोता। वयम् इसमे निकल चुका है। एक फोटो बाज़ु मे और दूसरा ऊपर मे लिया गया है।



ये व्रचपत के पांच चरणों से गुज़रते हैं। इस दौरान वयम् बनने की प्रक्रिया मे न केवल इनका आकार चीटी से बढ़कर तीन-चार मे मी. तक पहुंच जाता है — साथ ही ये कायांतरण (Metamorphosis) के कई चरणों से भी गुज़रते हैं। इस प्रक्रिया को 1.2 माल लग जाते हैं। और फिर तेरहवे माल मे जाड़ होता है। तेरहवें माल की वसन्त क्रतु में, बाहर निकलने से कुछ हफ्ते पहले ये बाल कीट ज़मीन से बाहर आने के लिए सुरंगे बनाते हैं। ज़मीन की सतह तक निकलने वाली ये सुरंगे लगभग एक मे. मी. व्यास की होती है। कभी-कभी इन सुरंगों से एक

चिमनीनुमा मिंग भी बाहर की ओर निकला दिखता है। बाहर आने वाली गत में, मभी बाल-कीट सूरज छब्बने के कुछ ही देर बाद अपनी सुरंगों के गत्ते बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर ये पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और अपने अंतिम कायांतरण से गुज़रते हुए, और लगभग तीन-चार मे. मी. लंबे वयम् कीट के रूप मे प्रकट होते हैं।

#### निकलने की शाम आई?

भारत के पांचवें हिस्मे जितने बड़े इलाके में फैले इन बाल कीटों को आखिर कैसे मालूम पड़ता है कि बाहर



नर सिकाड़ा: पत्ती के ऊपर  
उलटा पड़ा नर सिकाड़ा।  
इनमेट में पव्व के नीचे दिख  
गही मफेद मी रचना  
टिम्बल है। इसी टिम्बल में  
पैदा करते हैं ये अपनी  
आवाज़।


निकलने वाली शाम आन पहुंची है?  
कोई नहीं जानता यह। वैज्ञानिक वेताव  
हैं इस बारे में जानने को और जुटे  
हुए, हैं इस पहली को सुलझाने में।  
बाहर निकलने के बाद अभी तीन-  
चार दिन और लगते हैं सिकाड़ा के  
बाहरी कवच जैसे आवरण को कड़ा  
और गहरे रंग का होने में। और इसके  
बाद शुरू होता है समूहगान, जिसने  
मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया  
था कि मुझे कहीं टिनाइटिस तो नहीं  
है? वयस्क मिर्फ कुछ ही हफ्ते जीवित

रहते हैं — अपने 13 साल लम्बे जीवन के मुकाबले एक बहुत छोटा सा भाग।

सिर्फ नर सिकाड़ा ही यह ध्वनि पैदा कर सकते हैं। आवाज उत्पन्न करने के लिए उनके पंग्वां के नीचे (पेट के पहले खण्ड में) खास सफेद धारीदार अंग होते हैं। इन अंगों को टिम्बल (Tumble) कहते हैं। इनका पेट खोखला होता है — जो शायद सितार की तरह आवाज में गूंज पैदा करने के काम आता हो। नर सिकाड़ा बड़े-बड़े झुण्डों में रहते हैं और किसी पेड़ पर बैठे सारे नर एक-साथ आवाज़ निकालते हैं। यह समूहगान मादा सिकाड़ाओं को आकर्षित करने के लिए होता है। किसी पेड़ के नीचे खड़ा होकर

कोई भी इस गान के ऊपर चढ़ने और नीचे गिरने का मज़ा ले सकता है। और अगर आप पेड़ों की किसी कतार के पास खड़े हैं तो फिर बात ही क्या है। ऐसा लगता है कि आवाज़ पहले पेड़ से शुरू होकर अगले, फिर अगले से होते हुए पूरी कतार का सफर करती है, विलुल एक तरंग की तरह। अगर नर सिकाड़ाओं को पकड़ा जाए तो वे चिचियाने जैसी एक और ध्वनि पैदा करते हैं — यह ध्वनि दूसरों को खतरे से सरक करने के लिए होती है।

संसर्ग के बाद मादा सिकाड़ा पेड़ की छोटी शाखाओं पर बने छोटे-छोटे घोंसलों में अंडे देती हैं — एक घोंसले में अंडों की संख्या लगभग बीस होती है। एक मादा 600 के करीब अंडे



**मादा सिकाड़ा:** पर्सी के ऊपर उल्टी पड़ी मादा सिकाड़ा। फोटो में वो जगह इंगित की गई है जहां से वो अंडे देती है। एक मादा लगभग 600 के करीब अंडे देती है।

देती है। करीब छह हफ्ते बाद अंडे फूट जाते हैं, लार्वा शिशुकीट नीचे गिरकर ज़मीन में घुस जाते हैं और अपने तेरह साल के जीवनचक्र की शुरुआत करते हैं।

केन ने मुझे दिखाया कि कैसे सिकाड़ा को पलटकर देखा जा सकता है कि वो नर है या मादा। मादा सिकाड़ाओं का पेट नीचे की ओर नुकीला होता है और उसमें अंडे देने के लिए एक खास अंग (Ovipositor) भी होता है। सिकाड़ाओं ने मुझे कोडाइकनाल में पाए जाने वाले कुरुंजी पौधों की याद दिलाई। कुरुंजी के सभी पौधों में बारह सालों में एक बार, एक ही साथ फूल खिलते हैं। इसी तरह एक इलाके के बांस के पेड़ों में भी फूल कई सालों में एक बार, एक साथ ही खिलते हैं। कभी-कभी तो ये फूल 40 साल बाद आते हैं।

सिकाड़ाओं की कई प्रजातियां होती हैं जिनका जीवनकाल चार से लेकर सत्रह साल तक का हो सकता है। कुछ प्रजातियों में वयस्क सिकाड़ा हर साल प्रकट होते हैं। इनमें हरेक सिकाड़ा का जीवनचक्र आपस में समन्वित नहीं होता। अन्य प्रजातियों में जीवनचक्र समन्वित हात हैं और वयस्क सिकाड़ा तेरह साल में एक बार या कुछ प्रजातियों में सत्रह साल में प्रकट होते हैं। लेकिन उन वैज्ञानिकों का सोचो जो यह पता लगाने की कोशिश कर-

रहे हैं कि सब सिकाड़ाओं को यह कैसे पता चलता है कि अब बाहर निकलने का वक्त आ गया? क्या उन वैज्ञानिकों को तेरह या सत्रह साल तक इन्तजार करते रहना पड़ता है? किस्मत से ऐसा नहीं है। अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले सिकाड़ाओं के अलग-अलग झुण्ड अपना जीवनचक्र अलग-अलग सालों में पूरा करते हैं। (यहां झुण्ड से मतलब सिकाड़ाओं के ऐसे समूह से है जिसके सारे सदस्य एक ही साल में पैदा हुए हों।) इन झुण्डों की तुलना हम कुम्भ के मेले से कर सकते हैं। यह मेला भी किसी एक जगह पर बारह साल बाद ही लगता है। पर ऐसी चार जगहें हैं जहां ये मेले भरते हैं। इसलिए आप चाहें तो तीन साल बाद भी कुम्भ के मेले में जा सकते हैं। इसी तरह तेरह साल का जीवन चक्र वाले सिकाड़ाओं के तीन झुण्ड हैं — इनमें से एक 1998 यानी इसी साल प्रकट हो चुका है, दुसरा झुण्ड 2001 में और तीसरा झुण्ड 2007 में प्रकट होगा। इसी तरह सत्रह साल का जीवनचक्र वाले सिकाड़ाओं के भी बारह झुण्ड हैं।

सिकाड़ाओं का जीवनचक्र इतना अजीब क्यों होता है? जैविक विकास के क्रम में पेड़-पौधों और जानवरों की विभिन्न प्रजातियों में प्रजाति के जीवित रह पाने, बचे रहने को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रणनीतियां पाई जाती हैं। जीव-



पेड़ पर ऊपर जाते  
और नीचे उतरते  
सिकाड़ा।

दूसरे शिकारी जीव जी भरकर भी इन्हें खाएं,  
तो भी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए  
अडे देने के समय तक  
कुछ तो जीवित बच ही जाएंगे। मैंने  
गिलहरियों,  
चिड़ियाओं और कुत्तों  
को सिकाड़ा भक्षोसते  
देखा है। वे एक बार  
में इतनी तादाद में  
इन्हें खा जाते हैं कि  
फिर उलटी करने  
लगते हैं। मैं कल्पना  
कर रहा था कि इन

वैज्ञानिक यह मानते हैं कि चूंकि ये सिकाड़ा इतने अमहाय हैं, और इतने स्वादिष्ट भी कि मधी शिकारी जानवर उन्हें खाना बहुत पसन्द करते हैं। इसलिए जब ये अचानक बहुत बड़ी संख्या में एक साथ प्रकट होते हैं — तब अगर मधी पक्षी, गिलहरी और

दिनों जब चिड़ियों के घोसलों में मां या पिता खाना लेकर आते होंगे तब बच्चे गर्दन लम्बी करके पता लगाने की कोशिश करते होंगे कि खाने में क्या है? और फिर शायद वे नाक-भौं सिकोड़कर घोसले में दुबक जाते होंगे, 'अरे नहीं, सिकाड़ा . . . अब नहीं!'

नीरज जैन अमेरिका में पढ़ाते और शोध करते हैं। सभी फोटोग्राफ़: नीरज जैन।

मूल लेख अंग्रेजी में, अनुवाद : दुलदुल विश्वास, दुलदुल विश्वास एकलव्य द्वारा प्रकाशित बाल विज्ञान पत्रिका चक्रमक्म से अनुवद है।